

## परिशिष्ट-II-सी

दान लेने/क्रय करने की मंशा रखने वाले व्यक्ति का शपथ-पत्र

(निम्नलिखित शपथ 10/- रुपए मूल्य के एक गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्र पर प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी या उप-न्यायाधीश के समक्ष लिया जाना आवश्यक है)

मैं, \_\_\_\_\_ सुपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_ संपत्ति संख्या \_\_\_\_\_ जिसके स्वामी \_\_\_\_\_ है, को दान के रूप में ग्रहण करने/क्रय करने की मंशा रखता हूँ जिसके लिए मुझे भारत के राष्ट्रपति को भूमि व विकास अधिकारी के माध्यम से एक शपथ-पत्र देने, औपचारिक रूप से पुष्टि करने या शपथ लेने और निम्नलिखित घोषणा करना आवश्यक है:-

(क) कि मेरा दिल्ली/नई दिल्ली/दिल्ली छावनी में कोई आवासीय भूखंड या मकान नहीं है, न ही मेरे नाम से या फिर किसी और के नाम से।

(ख) कि न ही मेरी पत्नी/पति, न ही मेरे किसी आश्रित बच्चे या मेरे ऊपर आश्रित किसी और के पास दिल्ली/नई दिल्ली/दिल्ली छावनी में कोई आवासीय भूखंड/मकान उनके/उनकी या किसी और के नाम से नहीं है।

(ग) कि न ही मैंने मेरे नाम से या किसी और व्यक्ति के नाम से, न ही मेरी पत्नी/पति, आश्रित बच्चे/बच्चों या किसी और आश्रित ने स्वयं या किसी और व्यक्ति के नाम से भारत के राष्ट्रपति के किसी ऐच्छिक पट्टेदार/पट्टेदारों के साथ दिल्ली/नई दिल्ली/दिल्ली छावनी में स्थित ऐसे किसी आवासीय भूखंड/मकान के सम्बन्ध में किसी उद्देश्य के तहत ऐसा कोई समझौता किया है कि अन्ततः उक्त सम्पत्ति मुझे बिना किसी शर्त या किसी विशेष घटना के घटित होने या फिर किसी इच्छित पट्टेदार/पट्टेदारों के किसी कृत्य या चूक से प्राप्त हो सके।

(घ) कि मैं किसी और के पक्ष से किसी परिसर को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, इसका अर्थ है कि इसके पीछे किसी बेनामी लेन देन की मंशा नहीं है और न ही किसी विवाद की संभावना है।

(ड) कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने विधिनुसार व्यस्कता प्राप्त कर ली है।

(च) कि मैं भारत का एक नागरिक हूँ।

(छ) कि उपरोक्त शपथ-पत्र के तथ्य सत्य हैं तथा इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है और उपरोक्त शपथ-पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं छुपाया गया है जिसका उपरोक्त तथ्यों के साथ कोई संबद्धता हो।

शपथकर्ता

#### सत्यापन

मैं, \_\_\_\_\_ उपरोक्त नाम का शपथकर्ता एतद् द्वारा सत्यापित करता हूँ कि शपथ-पत्र में अनुच्छेद संख्या (क) और (च) में दिये गये वास्तविक तथ्य मेरे संज्ञान के अनुसार सत्य हैं और अनुच्छेद (छ) में दिये गये तथ्य भी मेरे विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

शपथकर्ता